



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्रबिहार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 433] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 7, 1977 आदि.न 15, 1899
No. 433] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1977/ASVINA 15, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(STOCK EXCHANGE DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October 1977

S.O. 709(E)—The Central Government, having considered the application for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956) read with rule 7 of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, by the Calcutta Stock Exchange Association Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the Exchange) and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 4 of the said Act, recognition to the Exchange, under section 4 of the said Act for a further period of five years commencing on the 10th day of October, 1977, and ending with the 9th day of October, 1982, in respect of contracts in securities, subject to the conditions stated herein below and such other conditions as may be prescribed or imposed hereafter.

CONDITIONS

1. No person shall be allowed to continue as President or Vice-President of the Exchange for a period of more than three consecutive years.

2. While the existing members may be allowed to continue irrespective of their educational qualifications, the new entrants shall be required to have passed matriculation or an equivalent examination for acquiring the membership of the Exchange.

3 The Articles of Association of the Exchange shall be amended for the purpose aforesaid as early as possible but in no case later than a period of one year from 10th October, 1977.

[No. F. 1/12/SE/77]

A. V. GANESAN, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(वित्तिक कार्य विभाग)

(स्थापक एक्सचेंज प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्टूबर, 1977

क्रा० आ० 709 (अ).—केन्द्रीय सरकार, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड, कलकत्ता II (जिसे इससे इतके पश्चात् एक्सचेंज कहा गया है) द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 7 के साथ संशोधित प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 3 के अन्तर्गत मान्यता का नवीकरण किन्हीं शर्तों के लिए दिए गये आवेदन पत्र पर विचार करने और इस बात से सन्तुष्ट होने के बाद कि ऐसा करना व्यापार के हित में तथा लोकहित में भी होगा, उक्त अधिनियम की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा इस एक्सचेंज को 10 अक्टूबर, 1977 से शुरू होने वाली और 9 अक्टूबर, 1982 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि के लिए, प्रतिभूतियों के संविदाओं के संबंध में नीचे दी गई शर्तों और ऐसी अन्य शर्तों के अनुसार जो बाद में निर्धारित की जाएंगी अथवा लागू की जाएंगी, मान्यता प्रदान करती है।

शर्तें

1. किसी भी व्यक्ति को लगातार तीन वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एक्सचेंज का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष नहीं बने रहने दिया जाएगा।

2. हालांकि वर्तमान सदस्यों को, चाहे उनकी शैक्षिक अर्हताएं कुछ भी हों, सदस्य बने रहने दिया जाएगा लेकिन नए व्यक्तियों के लिए एक्सचेंज की सदस्यता प्राप्त करने के वास्ते मैट्रिक पास या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी होगा।

3. संस्था की अन्तर्नियमावली में उक्त प्रयोजन के लिए यथाशीघ्र संशोधन किया जाएगा लेकिन यह संशोधन किसी भी हालत में 10 अक्टूबर, 1977 में एक वर्ष की अवधि के अन्दर-अन्दर कर लिया जाएगा।

[संख्या एक० 1/12/एस० ई०/77]

ए० वी० गणेशन, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार भूट्टणालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा निर्यन्त्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977